

NEWYORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL

चैरिटी केयर नीति सारांश

New York Presbyterian Hospital के उन रोगियों की सहायता की लंबे समय से नीति रही है जो हमारे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करते हैं और जिन्हें वित्तीय सहायता की ज़रूरत है भले ही उनकी आयु, लिंग, नस्ल, मूल देश, सामाजिक-आर्थिक या प्रवासी स्थिति, लैंगिक रुझान या धार्मिक जुड़ाव कोई भी हो।

यदि आपकी NEW YORK – PRESBYTERIAN HOSPITAL (हॉस्पिटल) के प्रति कोई वित्तीय दायित्व है, और आपको विश्वास है कि आप भुगतान करने में असमर्थ हैं, NYPH के पास एक चैरिटी केयर नीति है जो पात्र रोगियों की सहायता कर सकती है।

में कैसे जानूँ कि मैं चैरिटी केयर/वित्तीय मदद के लिए पात्र हूँ?

- न्यूयॉर्क राज्य के निवासी आवश्यक चिकित्सीय आपातकालीन सेवाओं के लिए चैरिटी केयर पाने के पात्र हो सकते हैं। हॉस्पिटल के प्राथमिक सेवा क्षेत्र के निवासी आवश्यक चिकित्सीय गैर-आपातकालीन सेवाओं के लिए चैरिटी केयर पाने के पात्र हो सकते हैं।
- NewYork-Presbyterian/Columbia (जिसमें NewYork-Presbyterian का Morgan Stanley Children's Hospital शामिल है), NewYork-Presbyterian/Weill Cornell, NewYork-Presbyterian/Lower Manhattan और NewYork-Presbyterian/Allen न्यूयॉर्क सिटी के पांच बरा (काउंटियों) का प्राथमिक सेवा क्षेत्र।
- NewYork-Presbyterian/Westcheste के लिए, प्राथमिक सेवा क्षेत्र निम्नलिखित काउंटियों से बना है: वेस्टचेस्टर, ब्रॉन्क्स, ओरेज, पुतनैम और रॉकलैंड।
- उपरोक्त कसौटी पर खरे उतरने वाले रोगी और जिनकी आय दिखाई गए राशियों से कम है, वे चैरिटी केयर/वित्तीय मदद के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदकों से शुद्ध संपत्तियों, जैसा कि चैरिटी केयर पॉलिसी में परिभाषित है, के लिए पूछा जा सकता है।

परिवार या घर में व्यक्ति संख्या	आय (प्रभा. 1/31/2017)
1	\$48,240
2	\$64,960
3	\$81,680
4	\$98,400
प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए, जोड़ें:	\$16,720

- चैरिटी केयर पात्रता आमतौर पर किसी चैरिटी केयर आवेदन के पूरा होने के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- यह नीति किसी चिकित्सक या दूसरे प्रदाताओं के द्वारा वसूले जाने वाले शुल्कों पर लागू नहीं होती; सभी चिकित्सक और अन्य सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं के लिए अलग से बिल बनाते हैं।

मुझे किस तरह की सहायता मिल सकती है?

- आपातकालीन या अन्य आवश्यक चिकित्सीय देखभाल वाले बीमित व्यक्तियों के लिए, हॉस्पिटल अपने चैरिटी केयर कार्यक्रम के पात्र व्यक्तियों से साधारण बिल राशि (AGB) से अधिक चार्ज नहीं करेगा। अन्य सभी सेवाओं के लिए, किसी भी पात्र व्यक्ति से हॉस्पिटल के सकल शुल्कों से अधिक चार्ज नहीं किया जा सकता है। हॉस्पिटल AGB का निर्धारण भावी विधि का प्रयोग करके, और उस दर को न्यूयॉर्क राज्य की मेडकेड सेवा शुल्क की दरों पर आधारित करता है।
- किस्त वाली योजना पात्र रोगियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
- एक बार आपका आवेदन जमा हो जाता है, तो उस आवेदन पर हमारे निर्णय लेने तक आप किसी भी बिल की अनदेखी कर सकते हैं।

में कैसे आवेदन कर या अपने सवालों का जवाब पा सकता/सकती हूँ?

- चैरिटी केयर नीति, सारांश, और आवेदन हमारे दाखिला कार्यालयों या हमारी वेबसाइट www.nyp.org पर चैरिटी केयर बटन के अंतर्गत अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उपलब्ध हैं
- चैरिटी केयर के लिए पात्रता और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दाखिला कार्यालयों में या हमें **टोल-फ्री (866) 252-0101** पर कॉल करने पर उपलब्ध है।